

तुरंत रिलीज के लिए

## वोटिंग डे वाले दिन समय बचाने के लिए वोटर्स सूची देखें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 सितम्बर, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन सभी योग्य मतदाताओं से निवेदन कर रही है कि वे सुनिश्चित करें कि वे वोटर्स सूची में हैं। योग्य मतदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल एंड स्कूल बोर्ड चुनाव (2022 Brampton Municipal and School Board Election) में वोट डालने के लिए वोटर्स सूची में हों।

प्रक्रिया आसान है। [सिटी की वेबसाइट \(City's website\)](#) पर जाएं, “क्या मैं वोटर्स सूची में हूँ?” (“Am I on the Voters’ List?”) पर क्लिक करें और यह देखने के लिए कि आप सूची में हैं, अपना नाम, जन्मतिथि और पता डालें। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप ऑनलाइन अपनी जानकारी का सत्यापन या उसे अपडेट कर सकते हैं या रजिस्टर में शामिल करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी।

योग्य मतदाता यह देखने के लिए सिटी हॉल (City Hall) में सिटी क्लर्क के कार्यालय भी जा सकते हैं कि वे वोटर्स सूची में हैं या नहीं और यदि जरूरत हो, तो वोटर्स सूची में सुधार करने के लिए आवेदन (Application to Amend the Voters’ List) फॉर्म भी पूरा कर सकते हैं। मतदाता, किसी भी एडवांस वोटिंग (Advance Voting) स्थान पर या वोटिंग डे (Voting Day) वाले दिन भी फॉर्म पूरा कर सकते हैं।

आप तब वोट डालने के लिए योग्य हैं, यदि आप कॅनेडियन नागरिक हैं, वोटिंग डे वाले दिन आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और ब्रैम्पटन में रहते हैं (या आप या आपका जीवनसाथी, ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी के मालिक या किराएदार हैं)।

### लिंक

- [देखें कि आप वोटर्स सूची में हैं \(Check if you are on the Voters’ List\)](#)
- [मतदाता योग्यता \(Voter eligibility\)](#)
- [ब्रैम्पटन वोट्स 2022 \(Brampton Votes 2022\)](#)

### हवाले

“चाहे आपने पिछले चुनाव में वोट डाली थी या सोमवार, 24 अक्टूबर से पहले आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण है कि आप वोटर्स सूची में हैं। अप-टू-डेट वोटर्स सूची समय बचाती है और ब्रैम्पटन के सभी मतदाताओं के लिए अधिक आसान वोटिंग प्रक्रिया को सक्षम बनाती है।”

- पीटर फे (Peter Fay), सिटी क्लर्क एंड रिटर्निंग अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन



## Media Release

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)